



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16122023-250697
CG-DL-W-16122023-250697

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 16—दिसम्बर 22, 2023 (अग्रहायण 25, 1945)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 16—DECEMBER 22, 2023 (AGRAHAYANA 25, 1945)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Railways and by attached and Subordinate Offices of the Government of India]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

[त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस)]

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/627—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6267755	U64201GJ1995PTC025548	श्री टेली-नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6115536	U74999GJ2007PTC049736	दर्शन फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6208382	U74140GJ2008PTC054423	प्रोफिसिएंट एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
4	AA6083705	U74999GJ2022PTC135853	थिंकडन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6142178	U72200GJ2010PTC059311	पावरथॉट्स इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
6	AA6213181	U80302GJ2011PTC064446	ग्लोकल फैशन प्राइवेट लिमिटेड
7	AA6179291	U51109GJ2012PTC070038	सुगम कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
8	AA6183839	U65929GJ2017PTC098076	पिनाक इश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	AA6241076	U93090GJ2017PTC097561	विश्वप्रिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AA6267936	U64204GJ2015PTC101459	जीटीपीएल मेघना डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AA6334385	U45500GJ2017PTC100156	एपाक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
12	AA6212965	U80904GJ2019PTC108187	ईईवीएस इंटरनेशनल एजुकेशन एंड वीजा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AA6113178	U72900GJ2020PTC113929	सिलापी मोबिलिटी 2यू प्राइवेट लिमिटेड
14	AA6130839	U65900GJ2020PTC114474	ट्रीनी कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
15	AA6318072	U65990GJ2021PTC121997	पीएमएफआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
16	AA6322506	U36910GJ2022PTC133866	माधव लैब ग्रोन डायमंड प्राइवेट लिमिटेड
17	AA6314248	U92490GJ2022PTC129376	ऐटीबी न्यूज प्राइवेट लिमिटेड
18	AA6276575	U72900GJ2022PTC133921	गलगोटा टेक प्राइवेट लिमिटेड
19	AA6279705	U15490GJ2022PTC132609	मैरीकॉम एग्रो ऑयल प्राइवेट लिमिटेड
20	AA6314203	U64910GJ2023PTC142654	क्लिंग फाइनेंशियल सर्विसेज आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड
21	AA6314581	U64910GJ2023PTC142911	टॉरस स्ट्रिंग फिनटेक आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कंपनियों के नामों को कंपनी रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कंपनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/628—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6201301	U15339KA2022PTC166486	नवदीव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6291711	U72200KA2007PTC044529	एक्विलोनिस् टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
3	AA6174415	U72900KA2011PTC059581	गोविंद ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6268272	U17200KA2013PTC070818	ईडोस इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6274505	U72900KA2014PTC074625	स्क्रायर ब्रिज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
6	AA6208600	U74900KA2012PTC062420	ब्रेन वीवर प्राइवेट लिमिटेड
7	AA6307960	U74140KA2015PTC079895	अलीपीरी कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
8	AA6188410	U70100KA2016PTC092431	आमची गोवा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
9	AA6173384	U74999KA2017FTC099668	पाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
10	AA6331694	U55200KA2016PTC092829	नोनू फ्रेश फूड प्राइवेट लिमिटेड
11	AA6109474	U65929KA2017PTC105577	पेंडाकुरबल्लारी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AA6202558	U72502KA2018PTC114369	स्पिंक्स मार्केटिंग टेक प्राइवेट लिमिटेड
13	AA6241876	U74999KA2017PTC108038	ब्रिज सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
14	AA6237696	U74994KA2018PTC110713	बीओबीएससीओ इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
15	AA6117815	U72900KA2018PTC115137	एम्बेडेक्स कंट्रोलस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
16	AA6310989	U92419KA2019OPC124417	बनानी विस्टा मीडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
17	AA6184270	U72200KA2018PTC118037	सुपीरियर एसोलोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
18	AA6098882	U51909KA2019OPC127817	क्राफ्टशेड्स लाइफस्टाइल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
19	AA6314649	U72900KA2019PTC129691	एपिक्राटेक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
20	AA6183980	U74910KA2020PTC133682	री-स्कल्ट एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड
21	AA6046604	U72900KA2020PTC133677	कोड मॉन्स्टर प्राइवेट लिमिटेड
22	AA6166000	U72900KA2020OPC133011	बिनीट्री टेक्नोलॉजीज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
23	AA6143977	U72900KA2020FTC133922	एमसीएनके कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
24	AA6140013	U80904KA2020PTC139497	मुजिकल्ट लर्निंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
25	AA6138447	U45209KA2020OPC138572	आरआरसी डिजाइन स्टूडियो (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
26	AA6141728	U74999KA2020PTC141921	ब्लुमिनर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
27	AA6280844	U65990KA2021PLN144515	स्व-जेवना अभिवर्द्धि लाभ निधि लिमिटेड
28	AA6153472	U63000KA2020PTC134894	अर्थ लेबल प्राइवेट लिमिटेड
29	AA6230966	U52609KA2021PTC152989	कल्चरकॉज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
30	AA6086789	U65999KA2022PLN164048	एन आर वडे निधि लिमिटेड
31	AA6162972	U67190KA2022PTC161963	वेदाईनवट्रस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
32	AA6152008	U72900KA2022FTC167074	फिब्राई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
33	AA6165958	U74999KA2022PTC168499	पोद्दार सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कंपनियों के नामों को कंपनी रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/629—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6149702	U74999BR2017PTC035054	वॉयसगेटवे इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6155151	U52609BR2019PTC043151	ओएसएलपीएस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/630—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6136424	U74999CT2021PTC011240	गरुड इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6127589	U41001CT2023PTC014371	विद्या कुंज हाउसिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/631—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6216757	U28112TN2000PTC043965	एएमसीआई (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6190230	U65921TN1996PTC034606	श्री पट्टवन फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6142413	U40300TN2012PTC084311	बी 2 एस ग्रीन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6148419	U72900TN2018PTC120957	पिक्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6143633	U74997TN2016PTC112235	एक्सवायज़टी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
6	AA6092078	U52100TN2016PTC110500	आरएमके सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
7	AA6279079	U93090TN2016PTC112972	करव इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
8	AA6178793	U15400TN2019PTC129409	फोंडो फूड प्राइवेट लिमिटेड
9	AA6275118	U72200TN2019PTC131883	केबोली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
10	AA5915021	U74999TN2020PTC134562	जिप्स रुपेली इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AA6273755	U72900TN2020PTC139188	पिक्सेलबर्ग क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
12	AA5953521	U52330TN2020PTC139873	365 आउटलेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
13	AA6327258	U85190TN2021PTC144210	श्रीमती अनुसूया हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AA6278570	U74999TN2019PTC127316	तादिवे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/632—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6154711	U65992TZ2009PTC015647	पेरुंदुरई रॉयल चिटफंडस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6258310	U74999TZ2017OPC029140	ऑक्टोसेन टेक्नोलॉजीज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6162320	U15549TZ2019PTC031873	इंटरमैक्स कोको प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/633—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6056409	U72900DL2020PTC360756	सिमप्रोलिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6316798	U74899DL1989PTC036707	वुडक्राफ्ट इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
3	AA6178187	U74899DL1984PTC018197	वर्षा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6142835	U74899DL1994PLC061166	मसीहा फाइनेंस लिमिटेड
5	AA6204058	U74899DL1995PLC065172	डायनामिक एनप्रो लिमिटेड
6	AA6289558	U74899DL1993PTC054792	ए एस पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड
7	AA6312030	U74899DL1991PTC045460	गुलपारिया गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AA6234361	U55101DL1996PTC075432	होटल चेतक टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AA6258014	U65921DL1996PTC083828	कॉर्प-एड फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
10	AA6325012	U32109DL2000PTC103401	ब्रूक्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AA6255021	U45201DL2003PTC119390	धनकमल इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AA6263220	U32204DL2007PTC168127	क्यूटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AA6186178	U70109DL2008PTC175196	स्विफ्ट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
14	AA6265359	U18101DL2006PTC150512	गौरांग गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AA6325016	U72200DL2008PTC182118	एनजीएनगुरु सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।
16	AA5955720	U74990DL2010PTC202215	स्वास्तिक बैंकअप ऑफिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
17	AA6312034	U29220DL2012PTC237233	ज्यूरस्ट इमेज टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
18	AA6233511	U80301DL2012PTC240143	ब्रेन सोरोबन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
19	AA6283531	U28112DL2012PTC239369	ऑनर्मास क्रिस्टल स् प्राइवेट लिमिटेड
20	AA6290381	U74140DL2013PTC251192	फार्मैसी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AA6182357	U74140DL2011PTC227316	आरसिम कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
22	AA6162909	U72200DL2014PTC269244	इनवब्रेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
23	AA6289828	U74140DL2012PTC242865	लिटजॉय इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
24	AA6005694	U40300DL2011PLC224178	जिंदल अंगुल पावर लिमिटेड
25	AA6289667	U70100DL2011PTC226084	श्री बालाजी राइजिंग प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
26	AA6255648	U74999DL2014PTC268891	एगॉन एचआर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
27	AA6186548	U45400DL2014PTC264058	इन्सिग्रिअ बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
28	AA6286790	U74999DL2016PTC289674	अल्मोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
29	AA6185724	U51909DL2012PTC230638	सीटीएएआरई एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
30	AA6267666	U74999DL2017PTC310250	कैफीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
31	AA6150914	U27320DL2017PTC313033	ताविसी एल्यूमीनियम और विंडोज प्राइवेट लिमिटेड
32	AA6328129	U63090DL2016PTC301685	555 कैब्स प्राइवेट लिमिटेड
33	AA6239493	U27100DL2015PTC278498	एसएसई मेटलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
34	AA6296066	U74999DL2017PTC319384	स्विफबीज ट्रेडकॉन प्राइवेट लिमिटेड
35	AA6072589	U72900DL2017PTC317231	एस्क्वेरजी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
36	AA6316444	U74999DL2017PTC322659	मो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
37	AA6251798	U51909DL1984PLC019517	सनशाइन कमर्शियल्स लिमिटेड
38	AA6194663	U73200DL2018PTC329380	एसवीसीके पॉलिसी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
39	AA6333810	U74999DL2018PTC329012	टेलीवेक्स इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
40	AA5086364	U65929DL2018PLC340181	धनमाला फाइनेंस लिमिटेड
41	AA6275452	U51909DL2018OPC337729	धार्मिक स्टोर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
42	AA6266149	U74999DL2018PTC339323	एओएमडीएम प्राइवेट लिमिटेड
43	AA6189600	U74999DL2018PTC332763	एसयू-एसडब्ल्यूए कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
44	AA6310436	U51909DL2019PTC348847	पम्हो ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
45	AA6082860	U85320DL2018PTC340903	स्परिट नर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
46	AA6164785	U93000DL2019PTC343805	गोल्डनविज्ञान कैम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
47	AA6290847	U24299DL2019PTC354602	डाइसर प्रो प्राइवेट लिमिटेड
48	AA5997332	U63030DL2019PTC355780	सफायर क्राउन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
49	AA6286277	U52322DL2020PTC361264	बावेजा अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड
50	AA6107348	U15100DL2020PTC363981	गोल्डरूट्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
51	AA6140349	U99999DL2000PTC104573	स्वाम ऑनलाइन .कॉम प्राइवेट लिमिटेड
52	AA6155557	U74999DL2020PTC368469	क्यूजेडजेडओ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
53	AA6279693	U74999DL2020PTC366425	ब्लैकटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
54	AA6166289	U15200DL2020PTC372177	आर 2 एम प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
55	AA6297262	U67100DL2020PTC374803	कैपिटल एक्ज प्राइवेट लिमिटेड
56	AA6220918	U51505DL2020PTC371865	ट्राइकेयर ईवी एंड रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड
57	AA6304317	U35999DL2021PTC379906	अरे3 मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
58	AA6111816	U72900DL2021PTC386275	बोटेज़ प्राइवेट लिमिटेड
59	AA6188646	U92490DL2021PTC383080	रैडविन बर्डी मशीन प्राइवेट लिमिटेड
60	AA6280700	U31909DL2021PTC391472	साई नवधारा प्राइवेट लिमिटेड
61	AA6166883	U63040DL2006PTC156850	जेटीजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
62	AA6093595	U24300DL2022PTC402104	ग्रूमिंग क्लब प्राइवेट लिमिटेड
63	AA6272666	U51909DL2022PTC399288	डैफने कंज्यूमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
64	AA6173796	U72900DL2022PTC399662	प्लेटफॉर्मएज इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
65	AA6273780	U51909DL2022PTC396904	हर्मिस कंज्यूमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
66	AA6007542	U63033DL2022PTC395210	ट्रायम्फ एजीआई प्राइवेट लिमिटेड
67	AA6064669	U45309DL2022PTC407706	साहब राम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
68	AA6249889	U65992DL2023PTC409453	सूरतपवार चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
69	AA6222969	U64990DL2023PLN414089	अधिक लाभ निधि लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/634—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6230717	U74999KL2019PTC056796	स्पीड रैपर प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6292611	U72200KL2015PTC038804	कैसल्स आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6256237	U72900KL2016PTC046328	न्यूसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6221145	U34300KL2018PTC054455	सेलेक्ट्रा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6283190	U70200KL2020PTC061419	विधियावधी इंटरनेशनल रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
6	AA6339905	U72200KL2022PTC074538	क्लोवर्स आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/635—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA5864403	U51103GA2013PTC007301	साइंटिफिका मेडिकल एंड लेबोरेटरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6324491	U74999GA2020PTC014563	टीटोस ग्रीनगोवा प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/636—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6278849	U24243MP1991PTC006536	शांतनु डिजिट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6181003	U52300MP2016PTC035202	वृही ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6200566	U72200MP2015PTC033925	आईसिम्पलीफी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6158343	U52599MP2013PTC030743	पल्पीपापाया रिटेलस प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6197279	U60221MP2018PTC045935	क्विक ट्रांसलिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	AA6239653	U52399MP2020PTC053850	निर्वाण ऑर्गेनिक नेचुरल फूड प्राइवेट लिमिटेड
7	AA6302068	U18100MP2021PTC057498	कोल्ड डेजर्ट गियर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/637—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6295393	U65992HR2007PTC036903	रेयान चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6274923	U22110HR2013PTC050063	केजी कैनवस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6255927	U74900HR2014PTC051581	दा थिंक कलेक्टिव कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6203094	U51505HR2016PTC058046	नोवेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6150500	U74140HR2013PTC051036	ऑप्टिमम रेल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
6	AA6279865	U74999HR2017PTC066979	एडटेक्स प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
7	AA6185025	U72900HR2019PTC082406	ब्लैकवेल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
8	AA6136276	U72900HR2019PTC080391	प्रेसिजन ऑफरिंग्स सिस्टम्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
9	AA6297409	U72200HR2019PTC080378	पीएसएम डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
10	AA6328813	U74999HR2019OPC080608	सना एडवाइजर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
11	AA6055522	U85100HR2020PTC085933	एआई2क्योर टेक प्राइवेट लिमिटेड
12	AA6169082	U74140HR2020PTC089758	ईएसएसडी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
13	AA6296714	U15490HR2020PTC087552	लीफ एंड सीड्स एग्रो प्राइवेट लिमिटेड
14	AA6220033	U74999HR2021PTC092985	मिमी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
15	AA6222668	U50400HR2021PTC093426	विल्क मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AA6075096	U27106HR2021PTC093417	सनप्लस मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AA6121392	U74999HR2022PTC101616	एक्सआरएटी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
18	AA5903896	U51909HR2022PTC100754	पीसीजी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
19	AA6171128	U25209HR2022PTC105114	क्रेडसोल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
20	AA6274876	U51909HR2022PTC101745	ज़ीउस कंज्यूमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
21	AA6282902	U51909HR2022PTC101746	टेथिस कंज्यूमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
22	AA6302715	U51909HR2022PTC101747	एरेस कंज्यूमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
23	AA6099290	U72900HR2022PTC104000	रेलटेक डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
24	AA6274248	U51393HR2022PTC101787	थेमिस कंज्यूमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
25	AA6166821	U46909HR2023OPC110408	निहारो ई-कॉमर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/638—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6334363	U29102TS2023PTC178162	न्यू एनर्जी ऑर्डर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6213173	U25209TG1988PTC008201	नीरा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6303386	U29309TG1991PTC013198	हेमांगो एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6153154	U40109TG1997PTC027784	आई.ई. पावर गियर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6330580	U24239TG1997PLC028272	क्रोना इंडस्ट्रीज लिमिटेड
6	AA6194928	U24230TG1996PTC025232	कटग थैरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AA6301894	U51103TG2009PTC066432	वेरिटास फिनआईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
8	AA6189012	U72200TG2012PTC081060	ईडेटाफोर्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	AA6340745	U45400TG2011PTC076425	गोल्ड स्ट्रैम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
10	AA6178967	U24232TG2014OPC096611	एमसी लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
11	AA6061948	U45209TG2014PTC094255	24-7 स्टॉप एन गो हाईवे प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड
12	AA6338240	U74999TG2017PTC115087	स्फीयर सोलर प्राइवेट लिमिटेड
13	AA6158505	U74999TG2016PTC111799	संपोड आईटी प्राइवेट लिमिटेड
14	AA6296415	U74110TG2006PTC049924	मेड टू स्टीच प्राइवेट लिमिटेड
15	AA6339402	U74140TG2019PTC136497	स्टार्टफ्रेंचाइजी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
16	AA6291046	U72900TG2019PTC137360	सूपिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
17	AA6170095	U74900TG2020PTC140991	हाईब्रो इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AA6284033	U52399TG2021PTC151378	विंड माइंड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
19	AA6046980	U45209TG2021PTC156221	आमोयर डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
20	AA6106466	U33112TG2022PTC160131	विबम हेल्थकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
21	AA6286546	U13202TG2022PTC161697	एसीवॉल माइनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
22	AA6325994	U24299TG2022PTC168919	शिप्रा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय

कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/639—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6274320	U74999HP2021PTC008811	सरसीज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6252896	U22200HP2022OPC009281	वकिशंद (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6190784	U72900HP2022PTC009673	डेक्सस्टेप प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/640—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6264817	U72200WB1997PTC084014	मेडलेज़ कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6167340	U74900WB2015PTC206162	जीएन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
3	AA6241023	U24290WB2022PTC251266	बीस्पोक परफ्यूम्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6069551	U20299WB2022PTC257785	सेव्यं प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/641—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6187641	U55209MH2019OPC321712	गणात्रा फूड्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6251351	U52209MH2022PTC389983	स्वेज ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6263520	U24230MH1989PTC053509	शेरिंग-प्लो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6042099	U01100MH2022PTC390786	इरा फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6274637	U36910MH1992PTC068551	ओरियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड
6	AA6334436	U29191MH1994PTC079969	नॉर्थ स्टार इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
7	AA6271733	U74999MH1995PTC094123	डॉ टी क फूड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AA6053716	U65922MH1995PTC087292	यूरोपा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
9	AA6081605	U67120MH1995PTC086796	अशोक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AA6282956	U74999MH1999PTC117729	आईवाईलीन फ्लक्सपावर प्राइवेट लिमिटेड
11	AA6085171	U67190MH2007PTC168704	रीजेंट फिनमार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
12	AA6286257	U45200MH2007PTC175722	फ्लोरेंस कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
13	AA6253883	U74200MH2008PTC184411	आर्कग्रुप इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AA5199340	U67190MH2010PTC206727	ब्रूटस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AA6130387	U92412MH2010PTC209183	नवी मुंबई चिल्ड्रेन साइंस पार्क प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
16	AA6320072	U51101MH2011PTC217280	जेएच बुलियन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
17	AA6184225	U70102MH2012PTC232924	यास्का रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AA6166930	U85191MH2012PTC230633	पीहेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
19	AA6209641	U80904MH2013PTC244085	नेमोनिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
20	AA6175894	U92110MH2003PTC142579	पल्सर एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AA6284934	U63040MH2003PTC140904	साई दिव्या ट्रेवेक्स प्राइवेट लिमिटेड
22	AA6286396	U52300MH2013PTC250121	सिक्सटी प्लस प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड
23	AA6283290	U72200MH2016PTC272692	कॉग्निटोइट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
24	AA5322697	U51101MH2016PTC271786	क्रेप केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
25	AA6057573	U74999MH2015PTC267500	मेडिवास्केट ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
26	AA6261279	U25209MH2016PTC273587	फिडेलिटी प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
27	AA6312200	U74999MH2015PTC265640	ब्रांडस्ट्रोलर ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
28	AA6233091	U74999MH2016PTC284336	मेटामोर्फोसिस न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड
29	AA6153864	U93000MH2018PTC305430	ब्रोची मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
30	AA6260753	U74994MH2018PTC308494	लसा फूड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
31	AA6128241	U72900MH2018PTC309099	मत्रा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
32	AA6260834	U01100MH2018PTC313893	फार्मक्लाउड्स एग्री इनपुट्स प्राइवेट लिमिटेड
33	AA6117227	U51909MH2019PTC333706	प्लैनेशिया वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड
34	AA6213731	U15400MH2018PTC317811	आशराज कॉफी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
35	AA6116426	U37200MH2020PTC345529	क्लाउडबी एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
36	AA6225534	U51100MH2009PTC189901	मेटिकुलोस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
37	AA6135349	U52190MH2021OPC360481	विरुपाक्षी कलेक्शंस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
38	AA6244326	U74999MH2021PTC365234	डिजी ऐप्स ऑनलाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
39	AA6330047	U15400MH2021PTC356645	पुष्कर गावडे बेवरेजेज इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
40	AA6319274	U17299MH2021PTC363559	उमंग साइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
41	AA5950544	U65990MH2021PLN356682	सागरमाथा निधि लिमिटेड
42	AA6319368	U01100MH2021PTC363472	उमंग वीवर्स प्राइवेट लिमिटेड
43	AA6162685	U65999MH2021PTC364500	फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एएमसी प्राइवेट लिमिटेड
44	AA6260330	U74999MH2022PTC375963	गेनेक्स एज प्राइवेट लिमिटेड
45	AA6140970	U72900MH2022OPC383692	ग्रिटिटूड लैब्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
46	AA6106082	U74999MH2022PTC392028	बरवा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
47	AA6244686	U28998MH2022PTC393741	कपरानी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/642—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6152583	U74140OR2001PTC006441	केजे टेक्नो कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6167087	U45500OR2018PTC030103	सिंधुजा बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6127012	U93090OR2020PTC033819	एवरक्लीन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6182252	U01100OR2022PTC038904	कंधमाल गोल्डन स्पाइसेस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/643—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6278467	U67110PN2022PTC214573	वर्षिनी आईएमएफ प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6196749	U72900PN2006PTC129252	एडिफाई सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
3	AA6288159	U72900PN2014PTC150830	खाश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6292012	U51101PN2015PTC157059	श्री शारदम्बा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6110456	U45101PN2018PTC178647	विक्रम काकडे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
6	AA6276414	U15134PN2019PTC187617	सुगोई फूडटेक प्राइवेट लिमिटेड
7	AA6074111	U52609PN2019OPC185428	देवदंत ग्लोबल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
8	AA6316462	U74999PN2020PTC192257	पेट्रोविल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	AA6305486	U74999PN2020PTC194908	एस डी सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AA6310293	U72900PN2022PTC212156	बिटबाइट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/644—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6305464	U74110PB2015PTC039593	हाईवे सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6334449	U17100PB2021PLC054276	ट्राइडेंट इनोवेशन लिमिटेड
3	AA6326095	U17299PB2022PLC056258	ट्राइडेंट होम डेकोर लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/645—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6305988	U15313RJ1998PTC014585	फ्लोरिडा फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6259082	U63040RJ2012PTC039569	एस्टैटिक इंडिया टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6120337	U65929RJ2017PLC059237	एरोगेज निधि लिमिटेड
4	AA6335081	U74999RJ2018PTC060673	जेनप्रोस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6110826	U65990RJ2020PLN071018	एचएसएस कुंतल निधि लिमिटेड
6	AA6258543	U72200RJ2020PTC069496	निरमोक्तर प्राइवेट लिमिटेड
7	AA6213679	U67120RJ2021PTC077302	एवीओ सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/646—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6056820	U26990ML2021PTC013812	खांगसारी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
2	AA6127679	U52190AS2020OPC019953	सैनत्रियो हेल्थ केयर (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/647—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6159397	U29306UP2020FTC139781	फ्रीपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6218074	U70109UP2019PTC112074	किंग्सोन इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6202028	U74999UP2019PTC113588	मायफैनस्टार इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6277609	U32201UP2022PTC170623	शमी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6179977	U65929UP2022PLN171173	सुधांस निधि लिमिटेड
6	AA6171820	U65921UP1991PLC013887	श्री पूरन मल्टीमीडिया लिमिटेड
7	AA6268540	U74900UP2010PTC041341	वन टच टेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
8	AA6199846	U70102UP2012PTC050777	फिजस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AA6047347	U05001UP1988PTC009964	ओसवाल पल्सेस प्राइवेट लिमिटेड
10	AA4998332	U17111UP1995PLC017859	विंध्य पॉलीटेक्स लिमिटेड
11	AA6232156	U15410UP1995PLC018497	बाजपेयी फूड्स लिमिटेड
12	AA6265566	U90009UP2017PTC096489	पीके स्मार्टटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
13	AA6249237	U80300UP2018PTC105517	गंगवार इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
14	AA6082072	U15118UP2018PTC102553	मुंडू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AA6139148	U51909UP2019PTC118040	ट्राटो लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
16	AA6265333	U63030UP2021OPC154764	एसआईएसवी लॉजिस्टिक्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
17	AA6264351	U15129UP2021PTC156285	ब्राइट फ्लोर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AA6272919	U28110UP2022PTC164381	बीकेएससी फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
19	AA6210570	U51900UP2022PTC162254	लवना कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AA5949342	U15400UP2022PTC163630	आव्या कॉमेस्टिबल्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AA6175296	U72900UP2022PTC161311	बस्कस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
22	AA6220578	U51909UP2022PTC171729	शुभ ऑर्गेनिक फीड्स एंड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/648—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6118922	U92112UR1987PTC008897	ज्योति फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6136595	U85300UR2022OPC014383	हाउस ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6277180	U15400UR2022PTC013780	बिजमॉन्क बॉडी फ्यूल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/649—

S. No.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6280081	U45201AP2021PTC119778	जीवीएसएस कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6173429	U65992AP2022PTC123019	एसएचपीवी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

सीमित दायित्व भागीदारी नियम 2008 की धारा 75 सहपठित सीमित देयता भागीदारी नियम 2009 के नियम 37(3) के संबंध में

बिलासपुर-495001, दिनांक 6 नवम्बर 2023

सं. आर.ओ.सी. सह शा0समा0—छत्तीसगढ़/37(3) एलएलपी-24/2023/1545—एलएलपी नियम 2009 के नियम 37 के उपनियम (3) के अनुसरण में सूचित किया जाता है कि, निम्नलिखित सीमित देयता भागीदारियों का नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है और निम्न सीमित देयता भागीदारियों विघटित हो गई है।

क्रमांक	एलएलपी नं०	एलएलपी का नाम	एसआरएन
1	AAS-2940	श्रंखला ट्रेडकॉम एलएलपी	M28052219
2	AAS-2964	ऋषियोग ट्रेडकॉम एलएलपी	M27723695

सीताराम शरण गुप्ता

कंपनी रजिस्ट्रार सह शासकीय समापक

छत्तीसगढ़

सार्वजनिक सूचना

लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 75 सपठित नियम 37(1) (बी) एवं नियम 37 (3) लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नियम, 2009 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनी के नाम काटने के विषय में।

पुणे-411044, दिनांक 11 दिसम्बर 2023

सं. आर.ओ.सी./एलएलपी/नियम-३७(३)/66/आईजी/२०२३—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) एक वर्ष या उससे अधिक समय से हुई कारोबार नहीं कर नहीं कर रहिया संचालन में नहीं है तथा निम्नलिखित एलएलपी

ने उसके सभी भागीदारों की स्वीकृति के साथ एलएलपी का नाम काटने हेतु कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, में पुणे कार्यालय में फॉर्म संख्या प्रस्तुत किया है।

इसलिए, एलएलपी से निम्नलिखित एलएलपी का नाम काटने का और जब तक ऐसी सूचना की तारीख से एक माह के अंदर इसके विरुद्ध कोई कारण नहीं बताया जाता है, उन्हें विघटित करने का प्रस्ताव है तथा प्रकाशन की तारीख से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विघटित हो जायेगी।

लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर से एलएलपी के नाम हटाने/काटने के प्रस्ताव पर आक्षेप करने वाला कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर उपरोक्त उल्लेखित कार्यालय के पते पर अपना आक्षेप भेज सकता है।

क्र.सं.	एस.आर.एन	एल.एल.पी. संख्या	एल. एल. पी. का नाम
1	M28242563	AAG-4746	ए आर लुंकड टूर्स एलएलपी
2	M28253941	AAX-5023	एक्सेंट पावर सॉल्यूशंस एलएलपी
3	M28168138	AAI-6340	अगवाज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एलएलपी
4	M28157784	AAF-7165	अनुसा इंडिया आईटी सॉल्यूशंस एलएलपी
5	M28160158	AAW-7450	अपालिस इनोवेशन एलएलपी
6	M28036588	AAG-9802	आर्गोस डायग्नोस्टिक सेंटर एलएलपी
7	M28103871	AAS-4669	अव्हाड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एलएलपी
8	M28150624	ABB-8720	ब्राइट फ्यूचर कंस्ट्रक्शन एलएलपी
9	M28241102	ABC-0853	बुसिकॉन कंसल्टेंसी एलएलपी
10	M28154443	AAZ-2500	चांस ट्रेडर्स एलएलपी
11	M28205087	AAL-4769	क्लाउड कन्फर्मिस्ट एलएलपी
12	M28168389	AAR-2567	सीपी लाइफस्टाइल एलएलपी
13	M28104333	AAV-8530	क्रीन इंडस्ट्रीज एलएलपी
14	M28202937	ABA-3287	क्रूकेम सिंथेसिस एलएलपी
15	M28178332	AAB-3101	डीआरएस कंस्ट्रक्शन्स एलएलपी
16	M28151401	AAG-3841	ईग्यानम कंसल्टिंग एलएलपी
17	M28095353	AAI-1189	इवेंटबीप एंटरटेनमेंट एलएलपी
18	M28091783	AAQ-5502	एक्स्प्लोरचॉइस ऑर्ग टेक एलएलपी
19	M28109217	AAS-4064	फर्मे डे मैरिन्स रिसॉर्ट्स अँड फार्म्स एलएलपी
20	M28242674	AAQ-2405	फूडम्बो ऑनलाइन सर्विसेज एलएलपी
21	M28135187	AAQ-2828	जीबीआईटी स्टूडियो एलएलपी
22	M28153252	AAC-6716	ग्रेस्पेस एडवाइजरी एलएलपी
23	M28097566	AAV-3137	ग्रीनफायर इंपोर्ट अँड एक्स्पोर्ट एलएलपी
24	M28268435	ABB-1165	हाई ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स एलएलपी
25	M28129562	ABB-0289	एचएमटी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एलएलपी
26	M28148666	AAR-6966	हाउसबडी टेक्नोलॉजीज एलएलपी
27	M28128321	ABB-2953	एचआरटी प्रॉपर्टीज एलएलपी
28	M28165516	AAM-6670	आइस बॉक्स हॉस्पिटैलिटी एलएलपी
29	M28149133	AAO-4886	आयकॉनआयचेलप सर्विसेज एलएलपी
30	M28193072	AAK-0515	जाधव सावंत अँड एसोसिएट्स एलएलपी
31	M28241485	AAN-9776	जीबीआईटी स्टूडियो एलएलपी
32	M28142076	AAG-7308	ग्रेस्पेस एडवाइजरी एलएलपी

क्र.सं.	एस.आर.एन	एल.एल.पी. संख्या	एल. एल. पी. का नाम
33	M28175840	AAB-9655	ग्रीनफायर इंपोर्ट अँड एक्सपोर्ट एलएलपी
34	M28206505	AAW-2332	हाई ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स एलएलपी
35	M28156420	AAO-9714	एचएमटी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एलएलपी
36	M28232249	AAL-4771	हाउसबडी टेक्नोलॉजीज एलएलपी
37	M28157408	AAV-6537	एचआरटी प्रॉपर्टीज एलएलपी
38	M28041243	AAI-6932	आइस बॉक्स हॉस्पिटैलिटी एलएलपी
39	M28171980	AAD-5006	आयकॉनआयचेलप सर्विसेज एलएलपी
40	M28248233	AAD-7122	जाधव सावंत अँड एसोसिएट्स एलएलपी
41	M28178789	AAX-0979	पंचधातु वेंचर्स एलएलपी
42	M28119988	AAL-2184	चैराडाइम सीएडी अकादमी एलएलपी
43	M28150484	AAO-6498	रसायन हेल्थ केयर एलएलपी
44	M28196998	AAI-4426	रेयांश इंटरनेशनल एलएलपी
45	M28267970	AAV-0186	रिदमाँफी एडुटेनमेंट एलएलपी
46	M28176978	AAM-3947	राइज वुड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एलएलपी
47	M28172722	AAV-4797	आरकेसी पोलोफार्म्स एलएलपी
48	M28253263	AAG-1290	सबाले अँड पारखी कंसल्टिंग एलएलपी
49	M28248846	AAV-8076	सामिश्री कंसल्टेंट्स एलएलपी
50	M28105885	AAW-3661	संजुक्ता फैशन एलएलपी
51	M28163768	AAL-0591	संकल्प कंसल्टेंट्स एलएलपी
52	M28166440	AAN-9017	सेप्पेलेक इंडिया इंजीनियरिंग एलएलपी
53	M28120978	AAP-0431	शोकुबाई कंसल्टेंसी एलएलपी
54	M28080620	AAG-6736	स्मार्ट केयर फॅसिलिटी मॅनेजमेन्ट एलएलपी
55	M28165537	AAO-3327	स्मार्टरॉक टेक्नोलॉजीज एलएलपी
56	M28152916	AAC-0440	सॉफ्टटेस्टलैब टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप
57	M28163100	AAG-7514	टैल्सकाउट एलएलपी
58	M28152192	AAX-4338	तपश हेल्थकेयर एलएलपी
59	M28168267	ABA-9581	टेक्नेसेंट एलएलपी
60	M28243327	AAN-4609	द मर्कटस डिजिटल अकादमी एलएलपी
61	M28165340	AAV-5278	श्री सिक्स्टी लैंडमार्क एलएलपी
62	M28176115	AAB-9758	वाहिनीवासिनी एंग्री उद्योग एलएलपी
63	M28154319	AAH-9117	विनिर्मिति टेक सॉल्यूशंस एलएलपी
64	M28163653	ABB-7629	वाइटल इंजन पार्ट्स इंडस्ट्री एलएलपी
65	M28222100	AAO-7758	वीकेडी एसवीडी कॉग्निटिव एलएलपी
66	M28165790	AAJ-0013	व्योम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एलएलपी

मंगेश जाधव, आईसीएलएस
कंपनी रजिस्ट्रार
पूणे

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
[CENTRE FOR PROCESSING ACCELERATED CORPORATE EXIT (C-PACE)]

FORM No. STK —6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/627—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6267755	U64201GJ1995PTC025548	SHREE TELE-NETWORK PRIVATE LIMITED
2	AA6115536	U74999GJ2007PTC049736	DARSHAN FOREX PRIVATE LIMITED
3	AA6208382	U74140GJ2008PTC054423	PROFICIENT ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
4	AA6083705	U74999GJ2022PTC135853	THINKDONE SERVICES PRIVATE LIMITED
5	AA6142178	U72200GJ2010PTC059311	POWERTHOUGHTS INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
6	AA6213181	U80302GJ2011PTC064446	GLOCAL FASHION PRIVATE LIMITED
7	AA6179291	U51109GJ2012PTC070038	SUGAM COMMODITIES PRIVATE LIMITED
8	AA6183839	U65929GJ2017PTC098076	PINAK INSURANCE MARKETING PRIVATE LIMITED
9	AA6241076	U93090GJ2017PTC097561	VISHWAPRIYA NETWORKS PRIVATE LIMITED
10	AA6267936	U64204GJ2015PTC101459	GTPL MEGHANA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
11	AA6334385	U45500GJ2017PTC100156	APAK BUILDCON PRIVATE LIMITED
12	AA6212965	U80904GJ2019PTC108187	EEVS INTERNATIONAL EDUCATION AND VISA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
13	AA6113178	U72900GJ2020PTC113929	SILAPI MOBILITY2YOU PRIVATE LIMITED
14	AA6130839	U65900GJ2020PTC114474	TREENI CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
15	AA6318072	U65990GJ2021PTC121997	PMFI INVESTMENT PRIVATE LIMITED
16	AA6322506	U36910GJ2022PTC133866	MADHAV LAB GROWN DIAMOND PRIVATE LIMITED
17	AA6314248	U92490GJ2022PTC129376	ATB NEWS PRIVATE LIMITED
18	AA6276575	U72900GJ2022PTC133921	GALGOTA TECH PRIVATE LIMITED
19	AA6279705	U15490GJ2022PTC132609	MARICOM AGRO OIL PRIVATE LIMITED
20	AA6314203	U64910GJ2023PTC142654	KLING FINANCIAL SERVICES IFSC PRIVATE LIMITED
21	AA6314581	U64910GJ2023PTC142911	TORUS STRING FINTECH IFSC PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/628—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6201301	U15339KA2022PTC166486	NAVDIV INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2	AA6291711	U72200KA2007PTC044529	AQUILONIS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3	AA6174415	U72900KA2011PTC059581	GOVIND TRADING SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4	AA6268272	U17200KA2013PTC070818	EIDOS INTERNATIONAL TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
5	AA6274505	U72900KA2014PTC074625	SQUARE BRIDGE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
6	AA6208600	U74900KA2012PTC062420	BRAIN WEAVER PRIVATE LIMITED
7	AA6307960	U74140KA2015PTC079895	ALIPIRI CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
8	AA6188410	U70100KA2016PTC092431	AMCHI GOA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
9	AA6173384	U74999KA2017FTC099668	PYPE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
10	AA6331694	U55200KA2016PTC092829	NONU FRESH FOOD PRIVATE LIMITED
11	AA6109474	U65929KA2017PTC105577	PENDAKURBALLARI CHITS PRIVATE LIMITED
12	AA6202558	U72502KA2018PTC114369	SPINKX MARKETING TECH PRIVATE LIMITED
13	AA6241876	U74999KA2017PTC108038	BRIDGE SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
14	AA6237696	U74994KA2018PTC110713	BOBSO ENGINEERING PRIVATE LIMITED
15	AA6117815	U72900KA2018PTC115137	EMBEDXCONTROLS INDIA PRIVATE LIMITED
16	AA6310989	U92419KA2019OPC124417	BANANI VISTA MEDIA (OPC) PRIVATE LIMITED
17	AA6184270	U72200KA2018PTC118037	SUPERIORE ECHELON TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
18	AA6098882	U51909KA2019OPC127817	CRAFTEDTHREADS LIFESTYLE (OPC) PRIVATE LIMITED
19	AA6314649	U72900KA2019PTC129691	EPIKRATECH IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
20	AA6183980	U74910KA2020PTC133682	RE-SCULPT APTITUDE AND TECHNICAL EXCELLENCE PRIVATE LIMITED
21	AA6046604	U72900KA2020PTC133677	CODE MONSTER PRIVATE LIMITED
22	AA6166000	U72900KA2020OPC133011	BINYTREE TECHNOLOGIES (OPC) PRIVATE LIMITED
23	AA6143977	U72900KA2020FTC133922	MCNK CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
24	AA6140013	U80904KA2020PTC139497	MUZICULT LEARNING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
25	AA6138447	U45209KA2020OPC138572	RRC DESIGN STUDIO (OPC) PRIVATE LIMITED
26	AA6141728	U74999KA2020PTC141921	BLUMINER TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
27	AA6280844	U65990KA2021PLN144515	SWA-JEVANA ABHIVRUDDI BENEFIT FUND NIDHI LIMITED
28	AA6153472	U63000KA2020PTC134894	EARTH LABEL PRIVATE LIMITED
29	AA6230966	U52609KA2021PTC152989	CULTURECAUSE MARKETING PRIVATE LIMITED
30	AA6086789	U65999KA2022PLN164048	N R VADE NIDHI LIMITED
31	AA6162972	U67190KA2022PTC161963	VEDAINVTRUST MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
32	AA6152008	U72900KA2022FTC167074	FIBRAI INDIA PRIVATE LIMITED
33	AA6165958	U74999KA2022PTC168499	PODDER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/629—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6149702	U74999BR2017PTC035054	VOICEGATEWAY INFOTECH PRIVATE LIMITED
2	AA6155151	U52609BR2019PTC043151	OSLPS TRADERS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies

either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/630—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6136424	U74999CT2021PTC011240	GARUDA ENGINEERING AND FABRICATION PRIVATE LIMITED
2	AA6127589	U41001CT2023PTC014371	VIDHYA KUNJ HOUSING DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/631—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6216757	U28112TN2000PTC043965	AMCI (INDIA) PRIVATE LIMITED
2	AA6190230	U65921TN1996PTC034606	SREE PATTAVAN FINANCE AND INVESMENTS P LTD
3	AA6142413	U40300TN2012PTC084311	B2S GREEN TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
4	AA6148419	U72900TN2018PTC120957	PIXCRAFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
5	AA6143633	U74997TN2016PTC112235	XYZT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
6	AA6092078	U52100TN2016PTC110500	RMK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
7	AA6279079	U93090TN2016PTC112972	KARAV INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
8	AA6178793	U15400TN2019PTC129409	FONDO FOOD PRIVATE LIMITED
9	AA6275118	U72200TN2019PTC131883	KEBOLI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
10	AA5915021	U74999TN2020PTC134562	GYPES RUEPPELLII INTERNATIONAL TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
11	AA6273755	U72900TN2020PTC139188	PIXELBERG CREATIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
12	AA5953521	U52330TN2020PTC139873	365 OUTLET INDIA PRIVATE LIMITED
13	AA6327258	U85190TN2021PTC144210	SMT ANUSUYA HOSPITALS PRIVATE LIMITED
14	AA6278570	U74999TN2019PTC127316	TADIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/632—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6154711	U65992TZ2009PTC015647	PERUNDURAIROYAL CHIT FUNDS INDIA PRIVATE LIMITED
2	AA6258310	U74999TZ2017OPC029140	OCTOSEN TECHNOLOGIES (OPC) PRIVATE LIMITED
3	AA6162320	U15549TZ2019PTC031873	INTERMAX COCO PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/633—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6056409	U72900DL2020PTC360756	SIMPROLIX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2	AA6316798	U74899DL1989PTC036707	WOODCRAFT INTERIORS PRIVATE LIMITED
3	AA6178187	U74899DL1984PTC018197	VARSHA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
4	AA6142835	U74899DL1994PLC061166	MESSIAH FINANCE LIMITED

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
5	AA6204058	U74899DL1995PLC065172	DYNAMIC ENPRO LIMITED
6	AA6289558	U74899DL1993PTC054792	A S PORTFOLIO PRIVATE LIMITED
7	AA6312030	U74899DL1991PTC045460	GULPARIA GARMENTS PRIVATE LIMITED
8	AA6234361	U55101DL1996PTC075432	HOTEL CHETAK TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
9	AA6258014	U65921DL1996PTC083828	CORP-AID FINANCE AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
10	AA6325012	U32109DL2000PTC103401	BROOKS ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
11	AA6255021	U45201DL2003PTC119390	DHANKAMAL ENGINEERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
12	AA6263220	U32204DL2007PTC168127	QTECH ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
13	AA6186178	U70109DL2008PTC175196	SWIFT INFRACON PRIVATE LIMITED
14	AA6265359	U18101DL2006PTC150512	GAURANG GARMENTS PRIVATE LIMITED
15	AA6325016	U72200DL2008PTC182118	NGNGURU SOLUTIONS PRIVATE LIMITED.
16	AA5955720	U74990DL2010PTC202215	SWASTIK BACKUP OFFICE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
17	AA6312034	U29220DL2012PTC237233	DURST IMAGE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
18	AA6233511	U80301DL2012PTC240143	BRAIN SOROBAN ACADEMY PRIVATE LIMITED
19	AA6283531	U28112DL2012PTC239369	ORNAMAS CRYSTALS PRIVATE LIMITED
20	AA6290381	U74140DL2013PTC251192	PHARMAION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
21	AA6182357	U74140DL2011PTC227316	ARSYM CONSULTING PRIVATE LIMITED
22	AA6162909	U72200DL2014PTC269244	INVBRAIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
23	AA6289828	U74140DL2012PTC242865	LITEJOY INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
24	AA6005694	U40300DL2011PLC224178	JINDAL ANGUL POWER LIMITED
25	AA6289667	U70100DL2011PTC226084	SHRI BALAJI RISING PROPERTIES PRIVATE LIMITED
26	AA6255648	U74999DL2014PTC268891	AGON HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
27	AA6186548	U45400DL2014PTC264058	INSIGNIA BUILDTech PRIVATE LIMITED
28	AA6286790	U74999DL2016PTC289674	ALGOTECH INDIA PRIVATE LIMITED
29	AA6185724	U51909DL2012PTC230638	CTAARE EXIM PRIVATE LIMITED
30	AA6267666	U74999DL2017PTC310250	CAFFEINE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
31	AA6150914	U27320DL2017PTC313033	TAVISI ALUMINUM AND WINDOWS PRIVATE LIMITED
32	AA6328129	U63090DL2016PTC301685	555 CABS PRIVATE LIMITED
33	AA6239493	U27100DL2015PTC278498	SSE METALLOYS INDIA PRIVATE LIMITED
34	AA6296066	U74999DL2017PTC319384	SWIFBIZ TRADECON PRIVATE LIMITED
35	AA6072589	U72900DL2017PTC317231	ASQUAREG LABS PRIVATE LIMITED
36	AA6316444	U74999DL2017PTC322659	MO VENTURES PRIVATE LIMITED
37	AA6251798	U51909DL1984PLC019517	SUNSHINE COMMERCIALS LIMITED
38	AA6194663	U73200DL2018PTC329380	SVCK POLICY ADVISORY PRIVATE LIMITED

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
39	AA6333810	U74999DL2018PTC329012	TELEWAVES INFRA SERVICES PRIVATE LIMITED
40	AA5086364	U65929DL2018PLC340181	DHANMALA FINANCE LIMITED
41	AA6275452	U51909DL2018OPC337729	DHARMIK STORES (OPC) PRIVATE LIMITED
42	AA6266149	U74999DL2018PTC339323	AOMDM PRIVATE LIMITED
43	AA6189600	U74999DL2018PTC332763	SU-SWA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
44	AA6310436	U51909DL2019PTC348847	PAMHO GRANITES PRIVATE LIMITED
45	AA6082860	U85320DL2018PTC340903	SPIRIT NURSING PRIVATE LIMITED
46	AA6164785	U93000DL2019PTC343805	GOLDENVISION CAM INDIA PRIVATE LIMITED
47	AA6290847	U24299DL2019PTC354602	DICER PRO PRIVATE LIMITED
48	AA5997332	U63030DL2019PTC355780	SAPPHIRE CROWN SERVICES PRIVATE LIMITED
49	AA6286277	U52322DL2020PTC361264	BAWEJA APPARELS PRIVATE LIMITED
50	AA6107348	U15100DL2020PTC363981	GOLDROOTS FOODS PRIVATE LIMITED
51	AA6140349	U99999DL2000PTC104573	SVAM ONLINE.COM PRIVATE LIMITED
52	AA6155557	U74999DL2020PTC368469	QZZO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
53	AA6279693	U74999DL2020PTC366425	BLACKTIE ADVISORS PRIVATE LIMITED
54	AA6166289	U15200DL2020PTC372177	R2M PROCESSING PRIVATE LIMITED
55	AA6297262	U67100DL2020PTC374803	CAPITAL ACCRUE PRIVATE LIMITED
56	AA6220918	U51505DL2020PTC371865	TRICARE EV & RENEWABLES PRIVATE LIMITED
57	AA6304317	U35999DL2021PTC379906	ARE3 MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
58	AA6111816	U72900DL2021PTC386275	BOTEZ PRIVATE LIMITED
59	AA6188646	U92490DL2021PTC383080	RADVİN BİRDİE MACHINE PRIVATE LIMITED
60	AA6280700	U31909DL2021PTC391472	SAI NAVDHARA PRIVATE LIMITED
61	AA6166883	U63040DL2006PTC156850	JTG SERVICES PRIVATE LIMITED
62	AA6093595	U24300DL2022PTC402104	GROOMING CLUB PRIVATE LIMITED
63	AA6272666	U51909DL2022PTC399288	DAPHNE CONSUMER INDIA PRIVATE LIMITED
64	AA6173796	U72900DL2022PTC399662	PLATFORMEDGE INFOTECH PRIVATE LIMITED
65	AA6273780	U51909DL2022PTC396904	HERMIS CONSUMER INDIA PRIVATE LIMITED
66	AA6007542	U63033DL2022PTC395210	TRIUMPH AGI PRIVATE LIMITED
67	AA6064669	U45309DL2022PTC407706	SAHAB RAM CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
68	AA6249889	U65992DL2023PTC409453	SURATPANWAR CHIT FUND PRIVATE LIMITED
69	AA6222969	U64990DL2023PLN414089	ADHIK BENEFIT NIDHI LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/634—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6230717	U74999KL2019PTC056796	SPEED WRAPPERS PRIVATE LIMITED
2	AA6292611	U72200KL2015PTC038804	CASSELLS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3	AA6256237	U72900KL2016PTC046328	NUSOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4	AA6221145	U34300KL2018PTC054455	SELEKTRA INNOVATION PRIVATE LIMITED
5	AA6283190	U70200KL2020PTC061419	VIDHIAVADHY INTERNATIONAL REAL ESTATE & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
6	AA6339905	U72200KL2022PTC074538	CLOVERS IT PARK PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/635—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA5864403	U51103GA2013PTC007301	CIENTIFICA MEDICAL AND LABORATORY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2	AA6324491	U74999GA2020PTC014563	TITOS GREENGOA PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/636—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6278849	U24243MP1991PTC006536	SHANTANU DETERGENT AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2	AA6181003	U52300MP2016PTC035202	VRIHI TRADING PRIVATE LIMITED
3	AA6200566	U72200MP2015PTC033925	ISIMPLIFY DIGITAL PRIVATE LIMITED
4	AA6158343	U52599MP2013PTC030743	PULPYAPAYA RETAILS PRIVATE LIMITED
5	AA6197279	U60221MP2018PTC045935	QUICK TRANSLINK INDIA PRIVATE LIMITED

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
6	AA6239653	U52399MP2020PTC053850	NIRVAAN ORGANIC NATURAL FOOD PRIVATE LIMITED
7	AA6302068	U18100MP2021PTC057498	COLD DESERT GEAR (INDIA) PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/637—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6295393	U65992HR2007PTC036903	REYAN CHITS PRIVATE LIMITED
2	AA6274923	U22110HR2013PTC050063	KG CANVAS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
3	AA6255927	U74900HR2014PTC051581	THE THINK COLLECTIVE COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
4	AA6203094	U51505HR2016PTC058046	NOVEL PRODUCTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
5	AA6150500	U74140HR2013PTC051036	OPTIMUM RAIL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
6	AA6279865	U74999HR2017PTC066979	ADDTEX PROTECTION PRIVATE LIMITED
7	AA6185025	U72900HR2019PTC082406	BLACKWELL INNOVATION PRIVATE LIMITED
8	AA6136276	U72900HR2019PTC080391	PRECISION OFFERINGS SYSTEMS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
9	AA6297409	U72200HR2019PTC080378	PSM DIGITAL PRIVATE LIMITED
10	AA6328813	U74999HR2019OPC080608	SANA ADVISORS (OPC) PRIVATE LIMITED
11	AA6055522	U85100HR2020PTC085933	AI2CURE TECH PRIVATE LIMITED
12	AA6169082	U74140HR2020PTC089758	ESSD CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
13	AA6296714	U15490HR2020PTC087552	LEAF & SEEDS AGRO PRIVATE LIMITED

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
14	AA6220033	U74999HR2021PTC092985	MIMI ENERGY PRIVATE LIMITED
15	AA6222668	U50400HR2021PTC093426	VILK MOTORS PRIVATE LIMITED
16	AA6075096	U27106HR2021PTC093417	SUNPLUS METALS PRIVATE LIMITED
17	AA6121392	U74999HR2022PTC101616	XRAT CONSULTING PRIVATE LIMITED
18	AA5903896	U51909HR2022PTC100754	PCG HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
19	AA6171128	U25209HR2022PTC105114	KRREDSOL SERVICES PRIVATE LIMITED
20	AA6274876	U51909HR2022PTC101745	ZEUS CONSUMER INDIA PRIVATE LIMITED
21	AA6282902	U51909HR2022PTC101746	TETHYS CONSUMER INDIA PRIVATE LIMITED
22	AA6302715	U51909HR2022PTC101747	ARES CONSUMER INDIA PRIVATE LIMITED
23	AA6099290	U72900HR2022PTC104000	RELTECH DIGITAL PRIVATE LIMITED
24	AA6274248	U51393HR2022PTC101787	THEMIS CONSUMER INDIA PRIVATE LIMITED
25	AA6166821	U46909HR2023OPC110408	NIHARO E-COMMERCE (OPC) PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/638—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6334363	U29102TS2023PTC178162	NEW ENERGY ORDER MOBILITY PRIVATE LIMITED
2	AA6213173	U25209TG1988PTC008201	NEERA PLASTICS PVT LTD
3	AA6303386	U29309TG1991PTC013198	HEMANGO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
4	AA6153154	U40109TG1997PTC027784	I. E. POWER GEARS PRIVATE LIMITED
5	AA6330580	U24239TG1997PLC028272	KRONA INDUSTRIES LIMITED
6	AA6194928	U24230TG1996PTC025232	KATG THERAPEUTICS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
7	AA6301894	U51103TG2009PTC066432	VERITAS FINIT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
8	AA6189012	U72200TG2012PTC081060	EDATAFORCE CONSULTING PRIVATE LIMITED
9	AA6340745	U45400TG2011PTC076425	GOLD STREEM INFRA PRIVATE LIMITED
10	AA6178967	U24232TG2014OPC096611	MC LABORATORIES PRIVATE LIMITED (OPC)
11	AA6061948	U45209TG2014PTC094255	24-7 STOP N GO HIGHWAY PLAZA PRIVATE LIMITED
12	AA6338240	U74999TG2017PTC115087	SPHERE SOLAR PRIVATE LIMITED
13	AA6158505	U74999TG2016PTC111799	SAMPOD IT PRIVATE LIMITED
14	AA6296415	U74110TG2006PTC049924	MADE TO STITCH PRIVATE LIMITED
15	AA6339402	U74140TG2019PTC136497	STARTFRANCHISE CONSULTING & SERVICES PRIVATE LIMITED
16	AA6291046	U72900TG2019PTC137360	SNUPIT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
17	AA6170095	U74900TG2020PTC140991	HIGHBROW INTERIORS PRIVATE LIMITED
18	AA6284033	U52399TG2021PTC151378	WIND MIND EXIM PRIVATE LIMITED
19	AA6046980	U45209TG2021PTC156221	ARMOIRE DESIGN STUDIOS PRIVATE LIMITED
20	AA6106466	U33112TG2022PTC160131	WIBAM HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
21	AA6286546	U13202TG2022PTC161697	ACEWALL MINING SERVICES PRIVATE LIMITED
22	AA6325994	U24299TG2022PTC168919	SHIPRA LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/639—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6274320	U74999HP2021PTC008811	SARSIJ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
2	AA6252896	U22200HP2022OPC009281	WKRISHIND (OPC) PRIVATE LIMITED
3	AA6190784	U72900HP2022PTC009673	DEXSTEP PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/640—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6264817	U72200WB1997PTC084014	MEDLEYS CONSORTIUM PRIVATE LIMITED
2	AA6167340	U74900WB2015PTC206162	GN INFOTECH PRIVATE LIMITED
3	AA6241023	U24290WB2022PTC251266	BESPOKE PERFUMES PRIVATE LIMITED
4	AA6069551	U20299WB2022PTC257785	SEVYN PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/641—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6187641	U55209MH2019OPC321712	GANATRA FOODS (OPC) PRIVATE LIMITED
2	AA6251351	U52209MH2022PTC389983	SWEDGE TRADING INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
3	AA6263520	U24230MH1989PTC053509	SCHERING-PLOUGH (INDIA) PRIVATE LIMITED
4	AA6042099	U01100MH2022PTC390786	IRAA FARMS PRIVATE LIMITED
5	AA6274637	U36910MH1992PTC068551	ORION FASHIONS PRIVATE LIMITED
6	AA6334436	U29191MH1994PTC079969	NORTH STAR EQUIPMENT CORPORATION PRIVATE LIMITED
7	AA6271733	U74999MH1995PTC094123	DR.TK FOOD CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
8	AA6053716	U65922MH1995PTC087292	EUROPA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
9	AA6081605	U67120MH1995PTC086796	ASHOK REALTORS PRIVATE LIMITED
10	AA6282956	U74999MH1999PTC117729	IYLEEN FLUXPOWER PRIVATE LIMITED
11	AA6085171	U67190MH2007PTC168704	REGENT FINMARKETING PRIVATE LIMITED
12	AA6286257	U45200MH2007PTC175722	FLORENCE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
13	AA6253883	U74200MH2008PTC184411	ARCHGROUP INTERNATIONAL ARCHITECTS PRIVATE LIMITED
14	AA5199340	U67190MH2010PTC206727	BRUTUS INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED
15	AA6130387	U92412MH2010PTC209183	NAVI MUMBAI CHILDREN'S SCIENCE PARK PRIVATE LIMITED
16	AA6320072	U51101MH2011PTC217280	JH BULLION TRADING PRIVATE LIMITED
17	AA6184225	U70102MH2012PTC232924	YASKA REAL ESTATE DEVELOPERS AND INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
18	AA6166930	U85191MH2012PTC230633	PHEALTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
19	AA6209641	U80904MH2013PTC244085	MNEMONICS INSTITUTE OF ADVANCE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
20	AA6175894	U92110MH2003PTC142579	PULSAR ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
21	AA6284934	U63040MH2003PTC140904	SAI DIVYA TRAVEX PRIVATE LIMITED
22	AA6286396	U52300MH2013PTC250121	SIXTY PLUS PRODUCTS ONLINE PRIVATE LIMITED
23	AA6283290	U72200MH2016PTC272692	COGNITOIT CONSULTING PRIVATE LIMITED
24	AA5322697	U51101MH2016PTC271786	CREP CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
25	AA6057573	U74999MH2015PTC267500	MEDIBASKET ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
26	AA6261279	U25209MH2016PTC273587	FIDELITY PLAST PRIVATE LIMITED
27	AA6312200	U74999MH2015PTC265640	BRANDSTROLLER ECOMMERCE PRIVATE LIMITED
28	AA6233091	U74999MH2016PTC284336	METAMORPHOSIS NUTRITION PRIVATE LIMITED
29	AA6153864	U93000MH2018PTC305430	VROCHI MANAGEMENT TRAINING AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
30	AA6260753	U74994MH2018PTC308494	LASAA FOOD VENTURES PRIVATE LIMITED
31	AA6128241	U72900MH2018PTC309099	MATRA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
32	AA6260834	U01100MH2018PTC313893	FARMCLOUDS AGRO INPUTS PRIVATE LIMITED
33	AA6117227	U51909MH2019PTC333706	PLANETASIA WORLDWIDE PRIVATE LIMITED
34	AA6213731	U15400MH2018PTC317811	ASHRAJ COFFEE WORKS PRIVATE LIMITED
35	AA6116426	U37200MH2020PTC345529	CLOUDBEE ENVIRONMENT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
36	AA6225534	U51100MH2009PTC189901	METICULOUS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
37	AA6135349	U52190MH2021OPC360481	VIRUPAKSHI COLLECTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED
38	AA6244326	U74999MH2021PTC365234	DIGI APPS ONLINE MEDIA PRIVATE LIMITED
39	AA6330047	U15400MH2021PTC356645	PUSHKAR GAWADE BEVERAGES INDUSTRY PRIVATE LIMITED
40	AA6319274	U17299MH2021PTC363559	UMANG SIZERS PRIVATE LIMITED
41	AA5950544	U65990MH2021PLN356682	SAGARMATHA NIDHI LIMITED
42	AA6319368	U01100MH2021PTC363472	UMANG WEAVERS PRIVATE LIMITED
43	AA6162685	U65999MH2021PTC364500	FIRST GLOBAL INVESTECH AMC PRIVATE LIMITED
44	AA6260330	U74999MH2022PTC375963	GAINX EDGE PRIVATE LIMITED
45	AA6140970	U72900MH2022OPC383692	GRATITUDE LABS (OPC) PRIVATE LIMITED
46	AA6106082	U74999MH2022PTC392028	BARWA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
47	AA6244686	U28998MH2022PTC393741	CUPRANI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/642—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6152583	U74140OR2001PTC006441	KJ TECHNO CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2	AA6167087	U45500OR2018PTC030103	SINDHUJA BUILDCON PRIVATE LIMITED
3	AA6127012	U93090OR2020PTC033819	EVERCLEAN CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
4	AA6182252	U01100OR2022PTC038904	KANDHAMAL GOLDEN SPICES PRODUCER COMPANY LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/643—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6278467	U67110PN2022PTC214573	VARSHINI IMF PRIVATE LIMITED
2	AA6196749	U72900PN2006PTC129252	EDIFY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3	AA6288159	U72900PN2014PTC150830	QHASH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4	AA6292012	U51101PN2015PTC157059	SHREE SHARDAMBA TRADING PRIVATE LIMITED

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
5	AA6110456	U45101PN2018PTC178647	VIKRAM KAKADE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
6	AA6276414	U15134PN2019PTC187617	SUGOI FOODTECH PRIVATE LIMITED
7	AA6074111	U52609PN2019OPC185428	DEVEDANT GLOBAL (OPC) PRIVATE LIMITED
8	AA6316462	U74999PN2020PTC192257	PETROVIL INDIA PRIVATE LIMITED
9	AA6305486	U74999PN2020PTC194908	S D SUPPLY CHAIN MANagements PRIVATE LIMITED
10	AA6310293	U72900PN2022PTC212156	BITBYTE SYSTEMS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/644—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6305464	U74110PB2015PTC039593	HIGHWAY SERVICES PRIVATE LIMITED
2	AA6334449	U17100PB2021PLC054276	TRIDENT INNOVATIONS LIMITED
3	AA6326095	U17299PB2022PLC056258	TRIDENT HOME DECOR LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and

a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/645—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6305988	U15313RJ1998PTC014585	FLORIDA FOODS INDIA PRIVATE LIMITED
2	AA6259082	U63040RJ2012PTC039569	ECSTATIC INDIA TOURS PRIVATE LIMITED
3	AA6120337	U65929RJ2017PLC059237	AEROGAZE NIDHI LIMITED
4	AA6335081	U74999RJ2018PTC060673	ZENPROS CONSULTING PRIVATE LIMITED
5	AA6110826	U65990RJ2020PLN071018	HSS KUNTAL NIDHI LIMITED
6	AA6258543	U72200RJ2020PTC069496	NIRMOKTR PRIVATE LIMITED
7	AA6213679	U67120RJ2021PTC077302	AVO SECURITIES PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/646—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6056820	U26990ML2021PTC013812	KHANGSARI MINERALS PRIVATE LIMITED
2	AA6127679	U52190AS2020OPC019953	SANBRIO HEALTH CARE (OPC) PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/647—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6159397	U29306UP2020FTC139781	FREEPORTELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED
2	AA6218074	U70109UP2019PTC112074	KINGSONE INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED
3	AA6202028	U74999UP2019PTC113588	MYFANSTAR INFOTECH PRIVATE LIMITED
4	AA6277609	U32201UP2022PTC170623	SHMI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
5	AA6179977	U65929UP2022PLN171173	SUDHANCE NIDHI LIMITED
6	AA6171820	U65921UP1991PLC013887	SHRI PURAN MULTIMEDIA LIMITED
7	AA6268540	U74900UP2010PTC041341	ONE TOUCH TELE SERVICES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
8	AA6199846	U70102UP2012PTC050777	FIJAS INFRASTRUCTURE AND MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
9	AA6047347	U05001UP1988PTC009964	OSWAL PULSES PRIVATE LIMITED
10	AA4998332	U17111UP1995PLC017859	VINDHYA POLYTEX LIMITED
11	AA6232156	U15410UP1995PLC018497	BAJPAI FOODS LIMITED
12	AA6265566	U90009UP2017PTC096489	PK SMARTTECH INDIA PRIVATE LIMITED
13	AA6249237	U80300UP2018PTC105517	GANGWAR INSTITUTE PRIVATE LIMITED
14	AA6082072	U15118UP2018PTC102553	MUNDU FOODS PRIVATE LIMITED
15	AA6139148	U51909UP2019PTC118040	TRATO LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
16	AA6265333	U63030UP2021OPC154764	SISV LOGISTICS (OPC) PRIVATE LIMITED
17	AA6264351	U15129UP2021PTC156285	BRIGHT FLOUR PRODUCTS PRIVATE LIMITED
18	AA6272919	U28110UP2022PTC164381	BKSC FORGE PRIVATE LIMITED
19	AA6210570	U51900UP2022PTC162254	LAVANAH CONSUMERS PRIVATE LIMITED
20	AA5949342	U15400UP2022PTC163630	AAVYA COMESTIBLES PRIVATE LIMITED
21	AA6175296	U72900UP2022PTC161311	BSCS INDIA PRIVATE LIMITED
22	AA6220578	U51909UP2022PTC171729	SHUBH ORGANIC FEEDS AND FARMS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/648—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6118922	U92112UR1987PTC008897	JYOTI FILM DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
2	AA6136595	U85300UR2022OPC014383	HOUSE OF LIGHT AND HAPPINESS (OPC) PRIVATE LIMITED
3	AA6277180	U15400UR2022PTC013780	BINGEMONK BODY FUEL LABS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 13th December 2023

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/649—

Sl. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6280081	U45201AP2021PTC119778	GVSS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2	AA6173429	U65992AP2022PTC123019	SHPV CHITS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

In the matter of Section 75 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 37 (3) of Limited Liability Partnership Rules, 2009

Bilaspur-495001, the 6th November 2023

No. ROC-cum-OL-C.G./37(3)/LLP-24/2023/1545—Notice is hereby given under sub-Rule (3) of Rule 37 of LLP Rules, 2009 that the name of the following Limited Liability Partnerships have been struck off from the Register and the said Limited Liability Partnerships stand dissolved:—

Sl.No.	LLPIN	Name of the LLP	SRN
1	AAS-2940	SHRANKHALA TRADECOM LLP	M28052219
2	AAS-2964	RISHIYOG TRADECOM LLP	M27723695

SITARAM SHARAN GUPTA
Registrar of Companies-cum-
Official Liquidation, Chhattisgarh

PUBLIC NOTICE

In the matter of striking off of names of following Limited Liability Partnerships under Section 75 of Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 37(1) (b) and Rule 37(3) of Limited Liability Partnership Rule, 2009

Pune-411044, the 11th December 2023

No. ROC/LLP/RULE-37(3)/66/IG/2023:—NOTICE is hereby that the following Limited Liability Partnerships (LLP), are not carrying any business or operation for a period of one year or more and has filed Form-24 to the Registrar of Companies, Maharashtra, Pune with the consent of all partners of the limited liability partnership for striking off its name from register.

THEREFORE, on the basis of aforesaid ground, I intend to take action for striking off the name of the following LLPs from the Register and dissolve them unless a cause is shown to the contrary, within 30 days from the date of this notice.

ANY person objecting to the proposed striking off of name of the LLPs from the Register may send his/her objection along with copies of the relevant documents, if any, to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice:—

SR. No.	SRN	LLP NUMBER	LLP Name
1	M28242563	AAG-4746	A R LUNKAD TOURS LLP
2	M28253941	AAX-5023	ACCENT POWER SOLUTIONS LLP
3	M28168138	AAI-6340	AGVAJ ENGINEERING AND TECHNOLOGY LLP
4	M28157784	AAF-7165	ANUSA INDIA IT SOLUTIONS LLP
5	M28160158	AAW-7450	APALIS INNOVATIONS LLP
6	M28036588	AAG-9802	ARGOS DIAGNOSTIC CENTER LLP
7	M28103871	AAS-4669	AVHAD SOFTWARE SOLUTIONS LLP
8	M28150624	ABB-8720	BRIGHT FUTURE CONSTRUCTION LLP
9	M28241102	ABC-0853	BUSSICON CONSULTANCY LLP
10	M28154443	AAZ-2500	CHAANCE TRADERS LLP
11	M28205087	AAL-4769	CLOUD CONFORMIST LLP
12	M28168389	AAR-2567	CP LIFESTYLE LLP
13	M28104333	AAY-8530	CREEN INDUSTRIES LLP
14	M28202937	ABA-3287	CREWCHEM SYNTHESIS LLP
15	M28178332	AAB-3101	DRS CONSTRUCTIONS LLP
16	M28151401	AAG-3841	EGYANAM CONSULTING LLP
17	M28095353	AAI-1189	EVENTBEEP ENTERTAINMENT LLP

SR. No.	SRN	LLP NUMBER	LLP Name
18	M28091783	AAQ-5502	EXPLORECHOICE ORG TECH LLP
19	M28109217	AAS-4064	FERME DE MARINS RESORTS & FARMS LLP
20	M28242674	AAQ-2405	FOODAMBO ONLINE SERVICES LLP
21	M28135187	AAQ-2828	GBIT STUDIOS LLP
22	M28153252	AAC-6716	GRAYSPACE ADVISORY LLP
23	M28097566	AAV-3137	GREENFIRE IMPORT AND EXPORTS LLP
24	M28268435	ABB-1165	HIGH GREEN ENERGY SYSTEMS LLP
25	M28129562	ABB-0289	HMT HOSPITALITY SERVICES LLP
26	M28148666	AAR-6966	HOUSEBUDDY TECHNOLOGIES LLP
27	M28128321	ABB-2953	HRT PROPERTIES LLP
28	M28165516	AAM-6670	ICE BOX HOSPITALITY LLP
29	M28149133	AAO-4886	ICONICHELP SERVICES LLP
30	M28193072	AAK-0515	JADHAV SAWANT AND ASSOCIATES LLP
31	M28241485	AAN-9776	JAYGANESH SPACEHUB LLP
32	M28142076	AAG-7308	KISNA SHIPPING LLP
33	M28175840	AAB-9655	KULSUNDARI AGRI PRODUCTS LLP
34	M28206505	AAW-2332	MAHALAKSHUMI AUTO-INFRA & STONES LLP
35	M28156420	AAO-9714	MANVEDH SOCIAL WELLBEING AND COUNSELLING CENTER LLP
36	M28232249	AAL-4771	MYSKILLENHANCER LLP
37	M28157408	AAY-6537	N & J LEGAL SERVICES LLP
38	M28041243	AAI-6932	NAMAAMI CONSULTANTS LLP
39	M28171980	AAD-5006	OGALE INTERNATIONAL LLP
40	M28248233	AAD-7122	ONENESS MEDISERVE LLP
41	M28178789	AAX-0979	PANCHDHATU VENTURES LLP
42	M28119988	AAL-2184	PARADIGM CAD ACADEMY LLP
43	M28150484	AAO-6498	RASAYAN HEALTH CARE LLP
44	M28196998	AAI-4426	RAYANSH INTERNATIONAL LLP
45	M28267970	AAY-0186	RHYTHMOFY EDUTAINMENT LLP
46	M28176978	AAM-3947	RISE WOOD PRODUCTS AND SERVICES LLP
47	M28172722	AAY-4797	RKC POLLOFARMS LLP
48	M28253263	AAG-1290	SABALE AND PARKHI CONSULTING LLP
49	M28248846	AAY-8076	SAMISHRI CONSULTANTS LLP
50	M28105885	AAW-3661	SANJUKTA FASHION LLP
51	M28163768	AAL-0591	SANKSHEP CONSULTANTS LLP
52	M28166440	AAN-9017	SEPPELEC INDIA ENGINEERING LLP
53	M28120978	AAP-0431	SHOKUBAI CONSULTANCY LLP
54	M28080620	AAG-6736	SMART CARE FACILITY MANAGEMENT LLP
55	M28165537	AAO-3327	SMARTROCK TECHNOLOGIES LLP
56	M28152916	AAC-0440	SOFTTESTLAB TECHNOLOGIES LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
57	M28163100	AAG-7514	TALSCOUT LLP

SR. No.	SRN	LLP NUMBER	LLP Name
58	M28152192	AAX-4338	TAPASH HEALTHCARE LLP
59	M28168267	ABA-9581	Techcrescent LLP
60	M28243327	AAN-4609	THE MERCATUS DIGITAL ACADEMY LLP
61	M28165340	AAY-5278	THREE SIXTY LANDMARK LLP
62	M28176115	AAB-9758	VAHINVASINI AGRI UDYOG LLP
63	M28154319	AAH-9117	VINIRMITI TECH SOLUTIONS LLP
64	M28163653	ABB-7629	VITAL ENGINE PARTS INDUSTRY LLP
65	M28222100	AAO-7758	VKD SVD COGNITIVE LLP
66	M28165790	AAJ-0013	VYOM SOFTWARE EXPORT LLP

MANGESH JADHAV, ICLS
Registrar of Companies
Pune